

APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India T +91 11 4320 6650 F +91 11 2571 3631 E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2020-21/169

November 03, 2020

To The Manager, **BSE** Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 506166

Subject: Submission of Newspaper Cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Thursday, November 12, 2020.

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Thursday, November 12, 2020 as published in Financial Express and Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For APIS India Limited

Amit Anand

(Managing Director)

EWDE Investor Email: mail@apisindia.com

Encl: a/a

ASSAM ENTRADE LIMITED Read off: 16 TARA CHAND DUTTA STREET. 2ND FLOOR, KOLKATA-700073 CIN: U20219WB1985PLC096557

website: www.assamentrade.com NOTICE Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be neld on Tuesday, 10th day of November, 2020 at Kanpur.to interalia consider and approve standalone and consolidated Unaudited

ended 30th September, 2020. The said notice may be accessed on Company's website at www.assamentrade.com and also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

inancial results for the guarter and half year

For Assam Entrade Limited Date: 02.11.2020 Sd/- (Shalini Agarwal) Place: Kanpur Company Secretary

5 S.P.APPARELS LIMITED

Registered Office: 39-A, Extension Street, Kaikattipudur,

Avinashi 641654, Tirupur District, Tamilnadu Tel: +91 4295-714000, Website: www.spapparels.com Email: csoffice@s-p-apparels.com CIN: L18101TZ2005PLC012295

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11th, 2020 at the Registered office: 39-A, Extension Street, Kaikattipudur, Avinashi-641654, Tirupu District, Tamilnadu, to inter-alia consider, approve and take on record the unaudited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter / Half Year ended 30th September, 2020.

For S.P.Apparels Limited K. Vinodhini Place : Avinashi Company Secretary and Date: 02" November, 2020 Compliance Officer ARC FINANCE LIMITED

Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No.4, 4th Floor, Room no. 3, Kolkata-700 001 Email ID: arcfinancelimited@gmail.com CIN: L51909WB1982PLC035283 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of ARC FINANCE LIMITED will be held at the registered office of the Company on Thursday, 12th November 2020 at 12.30 P.M. to approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. In this connection, as informed earlier pursuant to 'Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the

aforesaid code. By Order of the Board For ARC Finance Limited **Dinesh Agarwal** Place: Kolkata Dated: 02/11/2020 DIN No. 08394760

EMRALD COMMERCIAL LIMITED Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No. 4. 4th Floor, Room No.4, Kolkata-700 001 Email Id.: emrald.com@gmail.com CIN: L29299WB1983PLC036040 NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) a meeting of the Board of Directors of EMRALD **COMMERCIAL LIMITED** will be held at the registered office of the Company on Wednesday, 11th November, 2020 at 12.30 P.M. inter alia. to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and year ended September 30, 2020. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code By Order of the Board

Jyoti Agarwal Place: Kolkata Dated: 02/11/2020 (Company Secretary) **RAJPUTANA INVESTMENT**

For Emrald Commercial Limited

& FINANCE LTD Regd. Off.: Flat No. 601, 6th Floor., Nanda Tower, 90 Phears Lane, Kolkata - 700 012

Corporate Office Address: 8/82/3, BRD Complex, Kozhikode Road, Parempadam Kunnamkulam Via, Thrissur Dist Kerala - 680 519 Email ID: info@rajputanainvestment.com

Website: www.rajputanainvestment.com Ph. No.: 91+ 82320 27550 CIN: L65929WB1941PLC010731

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 11th day of November, 2020 at the Corporate Office of the Company to take on record the Un-Audited Quarterly Financial Result of the Company for the Second Quarter ended 30th September, 2020.

The information contained in the notice is also available at the company's website http://www.www.raiputanainvestment.com. and website of the stock exchange a www.bseindia.com&www.cse-india.com For Rajputana Investment & Finance Ltd Sd/- Annu Jair Place: Kolkata (Company Secretary) Date: 02-11-2020



APIS INDIA LIMITED CIN: L51900DL1983PLC164048 Regd. Office: 18/32. East Patel Nagar, New Delhi-110008 Tel: 011-43206650 | Fax: 011-25713631; E-mail:mail@apisindia.com. Website: www.apisindia.com

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th day of November, 2020, at the Registered Office of the Company at 18/32. East Patel Nagar, New Delhi-110008, inter alia to transact the following

businesses: A. To consider, approve and take on record the unaudited financial results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter & half year

ended September 30, 2020. B. Any other business with the permission of chair.

Further for the purpose of above and in terms of Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the intimation regarding the closure of trading window [i.e. from Thursday, October 01,

2020 till Forty Eight (48) hours post the date of Board Meeting) for dealing in the securities of the Company has already been submitted to the Stock Exchange. The said notice is also available on the www.apisindia.com and on the website of the Stock Exchange viz. BSE Limited at

website of the company at www.bseindia.com. For APIS India Limited

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi.

Amit Anand Date: November 02, 2020 (Managing Director)

DIN: 00951321

VANI COMMERCIALS LIMITED Regd. Off.: 'AASTHA', LP -11C, Pitampura, New Delhi - 110034

Ph: 011-27324080 CIN: L74899DL1988PLC106425 Website: www.vanicommercials.com Email ID: info@vanicommercials.com

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 11th day of November, 2020 at 12:00 Noon at the Registered Office of the Company (through VC) to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter & half year ended 30th September, 2020.

Further, the Trading Window for dealing in the securities of the Company had been closed from 1st October, 2020 and would remain closed till 48 hours from the declaration of financial results. This information is also available on the website of the Company viz. www.vanicommercials.com and the website of Stock Exchange where the shares of the company are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com)

For Vani Commercials Limited

Jitender Kumar Juneja Place: New Delhi Managing Director & CFO DIN: 06639752 Date: 02.11.2020

JINDAL SAW LIMITED REGD. OFF.: A-1, UPSIDC INDL. AREA NANDGAON ROAD, KOSI KALAN, **DISTT. MATHURA - 281 403** CIN: L27104UP1984PLC023979 NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that a meeting of Board of Directors o the Company will be held on Monday, the 9 November, 2020 at New Delhi, inter-alia, to consider and approve the Unaudited (Standalone & Consolidated) Financia Results of the Company for 2nd quarter/half year ended on 30th September, 2020.

This Notice is also available on the website of the Company www.jindalsaw.com and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed namely, a www.bseindia.com and www.nseindia.com for JINDAL SAW LIMITED

SD/ **SUNIL K. JAIN** Place: New Delhi Company Secretary Date: 02nd November, 2020 FCS: 3056

SYMBIOX INVESTMENT & TRADING COMPANY LTD. CIN NO. L65993WB1979PLC032012 Regd. Office: 7A, Rani Rashmoni Road, Kolkata-700 013

Email ID: symvioxinvestment100@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of SYMBIOX INVESTMENT 8 TRADING COMPANY LTD. will be held a the registered office of the Company or Thursday, 12th November, 2020 at 2:30 P.M. to approve the Unaudited Financia Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. In thi connection, as informed earlier pursuant to 'Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEB (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, as amended, Trading Window fo dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company t the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and al connected persons covered under the aforesaid code.

By Order of the Board For Symbiox Investment and Trading Co. Ltd. Mina Devi Agarwal

Place: Kolkata Directo Dated: 02/11/2020 DIN No. 07370734

VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO. LTD Regd. Off.: 90, Phears Lane, 6th Floor Room no. 603, Kolkata-700 012, Email ID.: vipcl21@hotmail.com CIN: L65909WB1981PLC033333

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant t Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO. LTD. wi be held at the registered office of the Company on **Tuesday, 10th November** 2020 at 02.00 P.M. to approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. In this connection, as informed earlier pursuant to 'Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window fo dealing in the securities of the Compan shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all

connected persons covered under the aforesaid code. By Order of the Board For Venkateshwara Industrial Promotion Co. Ltd.

Ekta Kedia Place: Kolkata Dated: 02/11/2020 Company Secretary

KALPATARU ENGINEERING LIMITED Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani Poddar Court, Gate No. 4, 4th Floor, Room No. 4 Kolkata-700001 Email ID: kalpataruenggltd@gmail.com CIN: L27104WB1980PLC033133

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of KALPATARU **ENGINEERING LIMITED** will be held at the registered office of the Company of Monday, 09th November, 2020 at 1:30 P.M. to approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. In this connection, a nformed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code.

By Order of the Board For Kalpataru Engineering Limited

Bhakti Somiya Place: Kolkata Directo DIN No. 06957470 Dated: 02/11/2020

Bhavani Taluk, Erode District, Tamilnadu

Phone: 0422-4322222, 2221551

Fax: 0422-2220574, 4322488

Email: shares@sakthisugars.com

Web: www.sakthisugars.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the

Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations

2015, Notice is hereby given that a

meeting of Board of Directors of the

Company will be held on Wednesday,

11th November 2020 to consider and

approve, among others, Unaudited

Financial Results of the Company for

the quarter ended 30th September

2020. Further details are available on

the website of the Company

(www.sakthisugars.com) and also on

the website of BSE Ltd.

(www.bseindia.com) & NSE Ltd.

(www.nseindia.com), where the

Coimbatore For Sakthi Sugars Limited

By order of the Board

Sr.V.P. & Company Secretary

Company's shares are listed.

02.11.2020

Φ SAKTHI SUGARS LIMITED CIN: L15421TZ1961PLC000396 Regd Office: Sakthinagar - 638 315,

CIN:L65993TG1987PLC007163 # 8-2-672 / 5 & 6, 3rd Floor, Ilyas Mohammed Khan Estate, Road No.1 Banjara Hills, Hyderabad - 500034

Telangana, India. Ph. No: 040-23313288. Email: investors@vivobio.com Website: www.vivobio.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Year ended 30" September, 2020.

and also on the website of the stock exchange at www.bseindia.com where the shares of the company are listed. For Vivo Bio Tech Limited

A. Karthik Company Secretary M.No.A44462 Place: Hyderabad Date: 02.11.2020

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) Regd. Off.: C-4, District Centre, Saket, New Delhi- 110017, INDIA SPEN-1 Tel. No.: +91-11-29565666 Fax: +91-11-26854000. Web: www.ircon.org, E-mail: info@ircon.org CIN: L45203DL1976GOI008171

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the

Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 116 day of November 2020, inter-alia, to consider and approve the Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and half year ended on 30th September, 2020. This information is also available on the website of the Company viz., www.ircon.org and on the website of the Stock Exchanges viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com

Place: New Delhi Date: 02.11.2020 Company Secretary & Compliance Officer

> The Singareni Collieries Company Limited (A Government Company) Regd. Office: KOTHAGUDEM-507101, Telangana.

Procurement through e-procurement platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://www.sccImines.com NIT/Enquiry No.-Description / Subject- Last date and time for Submission of bid(s)

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE I

E082000268- Procurement of Stelmec make spares for maintenance of Stelmec make VCBs utilized at 132 KV and 33 KV Sub-stations on rate contract for 2 years on specific make basis- 13.11.2020-17:00 Hrs. E082000269- Procurement of Seal Kits for HEMM on Rate contract for 2 years.- 13.11.2020-17:00 Hrs. E1020O0270- Supply. Supervision & testing for erection and commissioning of 145KV 3150A SF6 Gas Circuit Breakers- 18.11.2020- 17:00 Hrs. E1520O0278- Procurement of various sizes of EN ROUNDS- 18.11.2020- 17:00 Hrs.

NIT No., Date - Name of the work - ECV - Last date & time for Submission of bids CW/SRP/E-40/T-50/2020-21- Construction of compound wall with Pre-stressed posts and panels to companys vacant land in Srirampur area, Mancherial (Dist), T.S.-Lump sum-18.11.2020-4:30 PM. CW/SRP/E-41/T-51/2020-21- Providing Chain link mesh fencing to companys vacant land in Srirampur area, Mancherial (Dist), T.S.- Rs.32,85,606/- 18.11.2020-4:30 PM. PR/2020-21/CVL/56 GM (MP) - Dv.GM (CIVIL) R.O. No.: 1097-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2020-21

60

RUCHIRA PAPERS LIMITED Regd.Office: Tirlokpur Road, Kala Amb, Distt. Sirmour (H.P) Web: www.ruchirapapers.com Email: cs@ruchirapapers.com

CIN: L21012HP1980PLC004336 NOTICE Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Tuesday, 10th November 2020, inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter/half year ended 30th September 2020. The information is also available on the Company's Website at

www.ruchirapapers.com and on the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com). For Ruchira Papers Limited

Sd/- Vishav Sethi Place: Kala- Amb Company Secretary Date: 02-11-2020

GSPL India Gasnet Limited CIN: U40200GJ2011SGC067449 Corp. Office: "GSPL Bhavan, Sector-26, Gandhinagar-382 028"

Tel: +91-79-23268500 Fax: +91-79-23268875 Website: www.gspcgroup.com NOTICE INVITING TENDER

GSPL India Gasnet Limited (GIGL) invites bids through e-tendering for following

tenders vide single stage three part bidding process: Tender-1-SCADA system for MBPL Phase-2 Project

Tender-2 - Telecom system for MBPL Phase-2 Project Entire bidding process including price bid will take place through (n)Procure - Tender Management Portal, Interested bidders can Bid and View the Tender Documents. Bid qualification Criteria and Bidding Schedule on https://www.nprocure.com. Details can also be viewed on GIGL Website (http://gspcgroup.com/GIGL/)

Details	Date & Time for Tender-1	Date & Time for Tender-2		
Date of tender Upload on www.nprocure.com	03/11/2020, 12:00 hrs	03/11/2020, 12:00 hrs		
Pre Bid Meeting (online)	10/11/2020, 16:00 hrs	11/11/2020, 16:00 hrs		
Last Date to Submit Pre-Bid Queries	11/11/2020, 18:00 hrs	12/11/2020, 18:00 hrs		
Last Date to Submit online Techno-Commercial Bid	26/11/2020 before 14:00 hrs	26/11/2020 before 14:00 hrs		
Online BID opening Date (Primary)	26/11/2020, 14:05 hrs	26/11/2020, 14:05 hrs		

All future announcement related to tenders shall be published on (n)Procure Portal ONLY GIGL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without

assigning any reason. GIGL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.

No.

Onesource John Venture Lid CIN: L74900TN1994PLC097983 J J Manor, 2nd Floor, No. 146, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore Chennai - 600 008 T: (91) - 044 - 4213 4343

F: (91) - 044 - 4213 4333

W: www.osivl.com | E: cs@osivl.com NOTICE 29(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company will be held at the registered office of the Company on Monday, 09th day of November, 2020 at 04.00 PM., to consider, approve and take on record, inter-alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarte and Half- Year ended 30th September, 2020 among other items.

By Order of the Board For Onesource Ideas Venture Limited Fathima Jalal Place : Chennai DIN: 00479516 **Managing Director** Date: 02/11/2020

HAMILTON POLES MANUFACTURING CO. LTD Regd. Off.: 7 Hare Street 4th Floor, Kolkata- 700001, Email ID.: hamiltonpoles@rediffmail.com CIN: L28991WB1981PLC033462

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Boar Directors of HAMILTON POLES MANUFACTURING CO.LTD will be held a the registered office of the Company or Monday, 09th November, 2020 at 12:30 P.M., to consider and take on record, inter alia the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEB Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, as amended, Trading Window fo dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and al connected persons covered under the aforesaid code By Order of the Board

For Hamilton Poles Manufacturing Co.Ltd Sd/ Shilpi Agarwal

Place: Kolkata Dated: 02/11/2020 Company Secretary

VIVO BIO TECH LIMITED

Regulation 29 read with 47 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday 11th November, 2020 at the Registered Office of the Company, inter alia to consider and approve Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Second Quarter and Half This information is also available on Company's website at www.vivobio.com

Advt No.: 94/2020

Government of India **Public Enterprises Selection Board** invites applications for the post of

DIRECTOR (FINANCE)

ANDREW YULE & CO. LTD.

Last date of receipt of applications in PESB is by 15:00 hours on 21st December, 2020 For details login to website

http://www.pesb.gov.in

बो पा**र्क्स**क लि BP\$CL

DHARANI FINANCE

Regd. Office: No. 59 Sterling Road,

Nungambakkam, Chennai - 600 034

CIN-L65191TN1990PLC019152

Tel: 91-44-2831 1313

Fax: 91-44-2823 2074

NOTICE is hereby given that a

Meeting of the Board of Directors will

be held on Tuesday, 10th November

2020, at the Registered Office to

consider and take on record the

Unaudited Financial Results for the

Quarter and Half Year ended 30th

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Office: 100A/1 Right wing, the

capital court ground floor, Shopping

centre, Munirka-III New Delhi 110067

E-mail: accounts@gogiacap.com

Website: www.gogiacap.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of Board

of Directors of the company is scheduled to

be held on Tuesday 10th November, 2020 at

3.30 pm at its registered office to consider

and approve the Un-audited Financial

Results of the Company for the second

Quarter ending on 30th September, 2020 and

any other matter with the permission of the chair.

The said notice can be accessed on the

website of the company at

www.gogiacap.com and may also be

iccessed on the stock exchange website

Date: 02.11.2020 Managing Director

CHEMICALS LIMITED

CO DHARANI SUGARS AND

Regd. Office: No. 59 Sterling Road,

Nungambakkam, Chennai - 600 034

CIN-L15421TN1987PLC014454

Tel: 91-44-2831 1313

Fax: 91-44-2823 2074

Email: secretarial@dharanisugars-pgp.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that a

Meeting of the Board of Directors will

be held on Wednesday, 11th

November 2020, at the Registered

Office to consider and take on record

the Unaudited Financial Results for

the Quarter and Half Year ended

for Dharani Sugars and

Chemicals Limited

E.P. Sakthivel

30th September, 2020.

Date: 03.11.2020

Place: Chennai - 34

For Gogia Capital Services Limited

SATISH GOGIA

at www.bse.com

Place: Delhi

for Dharani Finance Limited

Dr. S. Kuppan

Company Secretary

September, 2020.

Date: 03.11.2020

Place: Chennai - 34

Email: secretarial@dharanifinance.in

e: www.dharanifinance.in

LIMITED

※ Fiem

FIEM INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-11001. Tel.: +91-11-25927919 / 7820, Fax: +91-11-25927740,

E-mail: investor@fiemindustries.com, Website: www.fiemindustries.com CIN: L36999DL1989PLC034928

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, November 11, 2020, to consider and approve, inter-alia, the un-audited financial results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020. The said Notice may be accessed on the Company's website www.fiemindustries.com, and may also be acessed on the stock exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. For Fiem Industries Ltd.

Date: 02.11.2020 Place: Rai, Haryana

Arvind K. Chauhan Company Secretary

Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd.

(A Joint Venture of SAIL & DVC)

Hall No.: M-01, Old Administrative Building

Ref. No.: BPSCL/MM/20-21/Paper Advt./2846 Dated: 30.10.2020				
SI.No.	NIT No. / Date	Description	BOD & Time	
1.	BPSCL/MM/20-21/C-091/ NIT-930/2782 dt. 21.10.2020	Annual Maintenance Contract for Electrics of Coal Handling Plant and Fumace Oil station area including Unit#9 CHP and cleaning of Electrical Substations, Panels, etc.	17.11.2020 at 12.15 Hrs	
2.	BPSCL/MM/20-21/C-092/ NIT-931/2784 dt. 21.10.2020	Round the Clock Assistance in Shift Electrical Operation of Complete Electrics and supervisory & technical control of CPP.	17.11.2020 at 12.15 Hrs	
3.	BPSCL/MM/20-21/C-093/ NIT-932/2814 dt. 24.10.2020	Assistance in Operation of Boiler and Turbine DCS of Unit # 9.	24.11.2020 at 12.15 Hrs	
4.	BPSCL/MM/20-21/C-094/ NIT-933/2813 dt. 24.10.2020	Annual contract of cleaning of Roots of Boiler, Turbine, screw Conveyor of TPP, CPP and various buildings of Power Plant.	24.11.2020 at 12.15 Hrs	
5.	BPSCL/MM/20-21/C-096/ NIT-934/2822 dt. 27.10.2020	Strengthening of Turbine & RCPH Department for Supervisory Control.	27.11.2020 at 12.15 Hrs	
6.	BPSCL/MM/20-21/PUR-132/ NIT-935/2839 dt. 29.10.2020	Procurement of spares of ESPs.	27.11.2020 at 12.15 Hrs	

POLYOLS LIMITED

GULSHAN POLYOLS LIMITED CIN: L24231UP2000PLC034918

Regd. Off.: 9th K.M. Jansath Road, Muzaffarnagar - 251 001 (UP) Corporate Off.: G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092, Tel: 011-49999200, Fax: 011-49999202 Website: www.gulshanindia.com. E-mail: cs@gulshanindia.com FINANCIAL HIGHLIGHTS Q2 FY2020-21

Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th September, 2020 (Rs. In Lakhs)

SI. No.	Particulars	Quarter ended	Half end	Quarter ended		
		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Total income from Operations	20,860.79	32,956.01	34,531.68	17,660.98	
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	2,503.96	3,222.74	1,790.89	812.72	
3.	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary Items)	2,503.96	3,222.74	1,790.89	812.72	
4.	Net Profit/ (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,712.53	2,230.71	1,302.57	573.63	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)]	1,712.53	2,230.71	1,302.57	573.63	
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of Re 1/- each)	469.17	469.17	469.17	469.17	
7,	Reserves Excluding Revaluation Reserve					
8.	Earnings Per Share for Continuing and Discontinued Operations (Before & After Extraordinary Items) (Face Value of Re 1/-each)					
	Basic	3.65	4.75	2.78	1.22	
	Diluted	3.65	4.75	2.78	1.22	

reviewed and recommended by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 2, 2020. These results have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and they have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results. The above financial results and statements has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards

('IND AS') prerscribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The Board of Directors has declared an interim dividend of Re.0.60/- per equity share of face value of

Re. 1/- each (60%), in their meeting held on November 2, 2020 for FY 2020-21. Figures for the previous period have been regrouped/ rearranged wherever necessary to make them

comparable with current figure.

On behalf of Board of Directors For Gulshan Polyols Limited

Chairman and Managing Director

(Dr. Chandra K. Jain)

Place : Delhi

Company Secretary

Date: November 2, 2020

Zydus WEIIIESS LIIIIES LIIIES Registered office: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536 Khoraj (Gandhinagar), Nr. Vaishnodevi Circle, S. G. Highway, Ahmedabad 382 481.

Tel No. (101.70) 48040000 Website: www.zvduswellness.in, CIN No: L15201GJ1994PLC023490 **Zydus Wellness Limited**

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Six months ended September 30, 2020 ₹ in Lakh

Quarter Ended Six Months Ended Year Ended **Particulars** September September September March September June 30, 2020 30, 2019 30, 2020 30, 2019 31, 2020 30,2020 [Unaudited] [Unaudited] [Unaudited] [Unaudited] [Audited] [Unaudited] 34,480 177,753 53,919 Total Revenue 95,326 32,998 10,201 Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items and tax (739)8,315 (453 7,576 16,547 (10,534)8,315 (1,458)(2,219)6,526 12,127 Net Profit/ (Loss) for the period after exceptional items but before tax (10,534)8,920 (1,202)(1,614)6,838 14,172 Net Profit for the period after tax (10,559)8,944 (1,183)(1,615)6,852 14,390 Total Comprehensive Income Paid-up equity share capital (Face value ₹ 10/-) 6,363 5,766 5,766 6,363 5,766 5,766 Reserves excluding Revaluation Reserve 340,300 Earnings per share (of ₹ 10/- each) (EPS for quarter and six months ended is not annualised): Basic ₹ (18.14)15.47 (2.09)11.86 24.58 (2.79)

Diluted ₹ (2.09)15.47 (2.79)11.86 24.58 Notes: The above is an extract of the detailed format of the guarter and six months ended September 30, 2020, financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the Company's website: www.zyduswellness.in, on the website of BSE [www.bseindia.com] and on the website of NSE [www.nseindia.com].

> By Order of the Board For Zydus Wellness Limited

> > Dr. Sharvil P. Pate

Chairman

Date: November 2, 2020

Place: Ahmedabad

Cadila Healthcare Limited Registered Office: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Khoraj (Gandhinagar), Near Vaishnodevi Circle, Sarkhei- Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481



CIN: L24230GJ1995PLC025878 **Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30/09/2020** Runees in Million

Tel. No.: (+91-79) 4804 0000 Website: www.zyduscadila.com

		Rupees in Million					
				Corresponding			
				3 months	Year to date	Year to date	
Sr. No.	Particulars			ended	figures for	figures for the	
		3 Months	3 Months	30/09/2019 ir	the current	previous	Previous year
		ended	ended	the previous	period ended	period ended	ended
		30/09/2020		year	30/09/2020		31/03/2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	38,200	36,399	33,666	74,599	68,629	142,531
2	Net Profit for the period before exceptional items and tax	6,662	5,934	4,005	12,596	8,211	18,590
3	Net Profit for the period after exceptional items but before tax	5,342	5,934	1,224	11,276	5,163	14,954
4	Net Profit for the period after tax and Non-Controlling Interest	4,734	4,540	1,072	9,274	4,108	11,766
5	Total Comprehensive Income for the period after tax and Non-Controlling Interest	5,332	4,312	62	9,644	3,448	8,754
6	Paid-up equity share capital (Face value Re. 1/-)	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
7	Reserves excluding Revaluation Reserve (i.e. Other Equity)						102,733
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (not annualised)						
a	Basic (Rs.)	4.62	4.43	1.05	9.06	4.01	11.49
b	Diluted (Rs.)	4.62	4.43	1.05	9.06	4.01	11.49

[1] The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI [Listing Obligation and Disclosure Requirements] Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly Financial Results are available on the Company's website: www.zyduscadila.com, on the website of BSE [www.bseindia.com] and on the websit of NSE [www.nseindia.com].

For Cadila Healthcare Limited,

By Order of the Board.

Dr. Sharvil P. Patel Managing Director

1/4/1/1

For Ircon International Limited

Ritu Arora

Ahmedabad, November 2, 2020

पर लेने की कार्रवाई की जाएगी। "पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा प्रतिवेदन के लिए आरवीएनएल आचार संहिता" के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि 01 जुलाई, 2020 से आरंग हो चुकी है तथा 11 नवम्बर, 2020 को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद समाप्त

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02.11.2020 कृते रेल विकास निगम लिमिटेड

कल्पना दुबे कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएन : L24222HR1902PLC065611 पंजीकृत कार्यालय : स्टेनलेस सेंटर, चतुर्ध तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुरूग्राम, (हरियाणा)-122001 वेबसाइट : www.shalimarpaints.com ई-मेल : askus@shalimarpaints.com

एतद्द्वारा सूचीत किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि शालीमार पेंट्स लिमिटेड ("कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य विषयों के साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही / अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे।

इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.shalimarpaints.com तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स नामतः बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। वास्ते शालीमार पेंट्स लिमिटेड

तिथि : 02 नवम्बर, 2020 स्थान: गुरूग्राम

हस्ता./-कम्पनी सेक्रेटरी



शैक्षिक संचार संकाय

आईयूएसी कैम्पस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 दूरभाष: 011-24126418-19-20, फैक्स: 011-24126416 वेबसाइट : www.cec.nic.in



निविदा सं.: सीईसी / एएमसी लोक निर्माण कार्य / 2020-2021

शैक्षिक संचार संकाय में 2020-2021 के दौरान सिविल मरम्मत, देखमाल एवं छोटे सिविल कार्य के एएमसी के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र उपरोक्त पते पर एएमसी के तहत सिविल मरम्मत, देखभाल एवं छोटे सिविल कार्य हेतु पंजीकृत सिविल कॉन्ट्रैक्टर/ कंसल्टेंट से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। तकनीकी विवरण/ दस्तावेज़ सीईसी की वेबसाइट www.cec.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं।

'निदेशक, शैक्षिक संचार संकाय' के नाम नई दिल्ली में देय अग्रिम जमा राशि रु. 25,000 / - (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट एक अलग लिफाफा में रखें जिसके ऊपर निविदा संख्या लिख दें। अलग लिफाफे में डिमांड ड्राफ्ट समेत संपूर्ण निविदा दस्तावेज़ लिफाफा में सीलबंद कर उसके ऊपर 'शैक्षिक संचार संकाय परिसर में सिविल मरम्मत, देखमाल एवं छोटे कार्य के एएमसी की निविदा' लिखें और "मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षिक संचार संकाय, आईयूएसी कैम्पस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067" पर इस तरह भेजें कि 23.11.2020 दोपहर 3.00 बजे या उससे पहले पहुंच जाए। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 3.30 बजे शैक्षिक संचार संकाय में खोली जाएंगी।

शैक्षिक संचार संकाय को किसी या सभी निविदाओं को कोई कारण बताए बिना अस्वीकार करने का अधिकार है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को सामप्त तिमाही के लिये कम्पनी के स्टैण्डएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईटः www.alirox.com तथा साथ ही मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

> अलीरॉक्स एब्रेसिक्स लिमिटेड के लिये (सोनल पोपली) कम्पनी सचिव

तिथि : 2.11.2020 स्थान : नई दिल्ली

(सद. सं. 44167)

अरावली सिक्युरिटीज एंड

फाइनांस लिमिटेड CIN: L67120HR1980PLC039125

कार्यालयः प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003 फोन: 0124-4556677

ईमेल: info@aravalisecurities.com वेबसाईट: www.aravalisecurities.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 47 तथा अन्य लागू होने वाले विनियमन, यदि कोई हो, के अनुपालन में अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नव., 2020 को 3.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड

स्थानः गुरुगाँव तिथि: 2.11.2020 रुचि श्रीवास्तव कम्पनी सचिव

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh-247 554 Corp. Off: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida-201301 CIN: L15421UP1932PLC022174 Email: shares@trivenigroup.com website: www.trivenigroup.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure) Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 9th November, 2020 inter-alia to consider and take on record Unaudited Financial Results of the Company for the 2nd quarter/half year ended 30th September, 2020.

The intimation of the Board meeting is also available on the Company's website www.trivenigroup.com and also on the websites of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For Triveni Engineering & Industries Ltd. Geeta Bhalla

Date: 02.11.2020 Group VP & Company Secretary

लिए।

ख. कुर्सी की अनुमित से कोई अन्य व्यवसाय। उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि गुरूवार, अक्टूबर 01, 2020 से कंपनी की प्रतिभृतियों में सौदा करने के लिए अड्तालीस(48) घंटे बोर्ड की बैठक की तारीख तक) स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

तदनुसार, व्यापारिक विंडो गुरूवार, अक्टूबर 01, 2020 से शुक्रावार, नवम्बर 13, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srusteels.in तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड हस्ता./-

शालू गर्ग कंपनी सचिव एवं स्थान : नई दिल्ली अनुपालन अधिकारी विनांक : नवम्बर 02, 2020

apis'

एपिस इंडिया लिमिटेड

CIN: L51900DL1983PLC164048 पंजी. कार्यालयः 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 टेली: 011-43206650 | फैक्स: 011-25713631 ईमेलः mail@apisindia.com

वेबसाइट: www.apisindia.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) बिनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरूवार, 12 नवम्बर 2020 को 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, में निम्नलिखित व्यवसायों के लेन-देन पर विचार विमर्श किया जाएगा।

क. 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अंनअकेक्षित वित्तीय परिणामें (स्टैंडअलोन और समेकित) को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के लिए।

ग. कुर्सी की अनुमित से कोई अन्य व्यवसाय के

उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि गुरूवार, अक्टूबर 01, 2020 तक कंपनी की प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए अड्तालीस(48) घंटे बोर्ड की बैठक की तारीख) पोस्ट एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.apisindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

एपीस इंडिया लिमिटेड हस्ता./-अमित आनंद (प्रबंध निदेशक)

दिनांकः नवम्बर 02, 2020 डीआईएन: 00951321